



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 22 अगस्त, 2020

श्रावण 31, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 261/91-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प०आ०-217

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी०सी०-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-62 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र०सं०	विभागों का नाम	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिये नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	राजनैतिक पेंशन विभाग	1-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति	जिला मजिस्ट्रेट	30 कार्य दिवस	निदेशक/सचिव उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद लखनऊ	30 कार्य दिवस	संयुक्त सचिव, राजनैतिक पेंशन विभाग, उ०प्र० शासन	30 कार्य दिवस
		2-लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के पश्चात् आश्रित (यथा स्थिति पति/पत्नी) को सम्मान राशि की स्वीकृति	जिला मजिस्ट्रेट	30 कार्य दिवस	निदेशक/सचिव उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद लखनऊ	30 कार्य दिवस	संयुक्त सचिव, राजनैतिक पेंशन विभाग, उ०प्र० शासन	30 कार्य दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	बेसिक शिक्षा विभाग	1-अशासकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से 5 तक) की मान्यता	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (संबंधित जिला)	60 कार्य दिवस	मण्डलीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (संबंधित मण्डल)	30 कार्य दिवस	मण्डल स्तर पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य	30 कार्य दिवस
		2-अशासकीय जूनियर हाई स्कूल (कक्षा-6 से 8 तक) की मान्यता	मण्डलीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (संबंधित मण्डल)	60 कार्य दिवस	मण्डल स्तर पर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्राचार्य	30 कार्य दिवस	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (संबंधित मण्डल)	30 कार्य दिवस

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 261/XCI-2020, dated August 22, 2020 :

No. 261/XCI-2020

Dated Lucknow, August 22, 2020

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification in the Schedule *after* entries at serial number 62, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette* column wise be *inserted*, namely :-

SCHEDULE

Sl. no.	Name of the Departments	Services	Designated officer	Stipulated time limits for Services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of first Appeal officer	Second appellate authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Political Pension Department	1-Sanctioning of family pension to the dependent after the death of freedom fighter	District Magistrate	30 Working Days	Director/ Secretary, U.P. Freedom Fighter Welfare Council, Lucknow	30 Working Days	Joint Secretary Department of Political Pension, U.P.	30 Working Days
		2-Sanctioning of honour money to the dependent (wife/husband as the case may be) after the death of Loktantra Senani	District Magistrate	30 Working Days	Director/ Secretary, U.P. Freedom Fighter Welfare Council, Lucknow	30 Working Days	Joint Secretary Department of Political Pension, U.P.	30 Working Days

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Department of Basic Education	1-Recognition of private Primary Schools (class 1 to 5)	District Basic Education Officer (Concerned District)	60 Working Days	Regional Assistant Basic Education Officer (Concerned Region)	30 Working Days	Principal District Institute of Education and Training, Situated at regional Level	30 Working Days
		2-Recognition of private Upper Primary Schools (class 6 to 8)	Regional Assistant Basic Education Officer (Concerned Region)	60 Working Days	Principal District Institute of Education and Training, Situated at regional Level	30 Working Days	Regional Joint Director of Education (Concerned Region)	30 Working Days

By order,
JITENDRA KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 221 राजपत्र-2020-(608)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2020-(609)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।